



पत्रांक- 21/91306

दिनांक – 13/09/2021

सत्र 2020 में प्रवेशित प्रशिक्षुओं हेतु महत्वपूर्ण सूचना-

सूचना 1- द्वितीय वर्ष में पंजीकरण सम्बन्धित-

जल्द ही आपका प्रथम वर्ष का पाठ्यक्रम पूर्ण होने वाला है जिसके तुरंत बाद आपका द्वितीय वर्ष का पंजीकरण प्रारंभ हो जायेगा जिसके लिए आपका प्रथम वर्ष का सम्पूर्ण शुल्क जमा होना चाहिए। अतः ऐसे प्रशिक्षु जिनका अभी भी प्रथम वर्ष का शुल्क बकाया है वो किसी भी दशा में 20 सितम्बर के पूर्व अपना शुल्क जमा कर दें। अन्यथा वे पंजीकरण नहीं कर पाएंगे। पंजीकरण हेतु 1 सप्ताह का समय मिलेगा जिसके लिए आपको पंजीकरण फॉर्म के साथ प्रशिक्षण शुल्क में न्यूनतम 8000 रुपये जमा करना होगा। सभी प्रशिक्षुओं से यह अपेक्षा की जाती है कि वो अपने समय का ध्यान रखते हुए अपना बकाया शुल्क जमा कर दें और जिनका जमा है वो अपने द्वितीय वर्ष के प्रशिक्षण शुल्क की व्यवस्था कर लें। पंजीकरण का कार्य 20 सितम्बर से प्रारम्भ हो कर 30 सितम्बर 2021 तक चलेगा और 4 अक्टूबर 2021 से द्वितीय वर्ष का प्रशिक्षण प्रारम्भ हो जायेगा।

सूचना 2- छात्रवृत्ति नवीनीकरण सम्बन्धित-

सभी प्रशिक्षुओं को सूचित किया जाता है कि अपने छात्रवृत्ति नवीनीकरण का कार्य अतिशीघ्र प्रारम्भ कर दें जिसका प्रथम चरण नवीन पंजीकरण संख्या प्राप्त करना है उसे प्राप्त कर सुरक्षित कर लें कुछ दिनों में नवीनीकरण सम्बन्धित प्रक्रिया प्रारम्भ की जाएगी। ट्रेनिंग कैलेंडर में फॉर्म संस्थान में जमा करने की अंतिम तिथि निर्धारित की गयी है।

सूचना 3- प्रथम वर्ष की अखिल भारतीय व्यवसायिक परीक्षा सम्बन्धित-

आपके प्रथम वर्ष के परीक्षा सम्बन्धित अभी कोई सूचना नहीं है और दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि देवरिया जिला के कई संस्थानों के 2 वर्षों से परीक्षा भी नहीं हुई है हालांकि आपके संस्थान की सभी परीक्षाएं पूर्ण है बस 2019-21 के द्वितीय वर्ष की परीक्षा शेष है जो अक्टूबर 2021 में प्रस्तावित है। इसलिए बिना किसी का इंतजार किये आपका द्वितीय वर्ष का प्रशिक्षण प्रारंभ कर दिया जाएगा। परीक्षा की सूचना आने पर एक रिवीजन क्लासेज चला कर परीक्षा हो जाएगी।

सूचनार्थ प्रेषित-

1. संस्थान के वेबसाइट एवं प्रशिक्षु मोबाइल एप पर।
2. नोटिस बोर्ड।
3. गार्ड फाइल।

